

# Glimpses of State Level Stakeholder's Consultation at Jaipur





# हर महिला को वित्तीय साक्षर बनकर बैंकिंग योजनाओं का लाभ लेना जरूरी

## वित्तीय साक्षरता पर जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित

जयपुर मिड-डे टाइम्स

चित्तौड़गढ़। महिलाएं सरकारी एवं गैर सरकारी वित्तीय संस्थाओं की योजनाओं से जुड़कर आत्मनिर्भर बने, आज के युग में बैंकिंग एक बुनियादी सेवा के रूप में विकसित हो रही है। हर महिला को वित्तीय साक्षर होना जरूरी है। उक्त विचार जिला रसद अधिकारी कुमारी बिजल सुराणा ने कट्स मानव विकास केन्द्र द्वारा शुक्रवार को किसान भवन के सभागार में आयोजित वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण परियोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय हितधारक एवं वित्तीय परामर्श कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किया। कट्स के सहायक निदेशक गौहर महमूद ने बताया कि भारत सरकार के उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सहयोग से संचालित वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण परियोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है।



बताया कि भारत सरकार के उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सहयोग से संचालित वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण परियोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है।

रूप में अग्रणी जिला प्रबन्धक एस.के. मेन्दिरत्ता ने बताया कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना से जुड़ना चाहिए एवं महिलाएं स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम से जुड़ कर बचत करने की आदत विकसित करने पर जोर दिया। बीआरकेजी बैंक के एफएलसी कोऑर्डिनेटर अखीन्द पुरोहित ने बैंकों की जानकारी देते हुए बताया कि योजनाएं

है और 45 दिन के भीतर उसने एक बार कार्ड का उपयोग किया हो तो सरकार उसे 2 लाख तक का मुआवजा देती है, इस तरह अटल पेंशन योजना में 60 वर्ष की उम्र के पश्चात् 1000 से 5000 तक की पेंशन परिवार का कोई भी सदस्य जो 18 वर्ष से अधिक का हो, फायदा ले सकता है। इस अवसर पर सरकार के उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय दिल्ली के प्रतिनिधि श्री सचिन कुमार ने महिलाओं को शिक्षित और जागरूक होकर डिजिटल सेवाओं का उपयोग कर लेना और सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए

# जिला स्तरीय कार्यशाला में वित्तीय योजनाओं से जुड़कर आत्मनिर्भर बनने के लिए किया प्रेरित



चित्तौड़गढ़। कार्यशाला में मंचासीन अतिथिगण। फोटो - नरेश ठक्कर

## हर महिला का वित्तीय साक्षर होना जरूरी

चित्तौड़गढ़। महिलाएं सरकारी एवं गैर सरकारी वित्तीय संस्थाओं की योजनाओं से जुड़कर आत्मनिर्भर बने, आज के युग में बैंकिंग एक बुनियादी सेवा के रूप में विकसित हो रही है। हर महिला को वित्तीय साक्षर होना जरूरी है। उक्त विचार जिला रसद अधिकारी कुमारी बिजल सुराणा ने कट्स मानव विकास केन्द्र द्वारा शुक्रवार को किसान भवन के सभागार में आयोजित वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण परियोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय हितधारक एवं वित्तीय परामर्श कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किया। कट्स के सहायक निदेशक गौहर महमूद ने बताया कि भारत सरकार के उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सहयोग से संचालित वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण परियोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है।



सहायक निदेशक गौहर महमूद ने बताया कि भारत सरकार के उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सहयोग से संचालित वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण परियोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है।

कुमार ने महिलाओं को शिक्षित और जागरूक होकर डिजिटल सेवाओं से जुड़ने की बात कही। कट्स जयपुर के सहायक निदेशक दीपक सक्सेना ने गतिविधियों को रखा। आकोला की सुराणा बुनकर, बेगू की रानी जैन, भैरसोड़गढ़ की गायत्री वैष्णव, ओंछडी की बदाम गाडीलीहार, बस्सी की तस्लीमा बानू, भोगलसागर से राधेश्याम पारारार, भादसोड़ा के श्यामलाल टेलर, मेवदा के जमनालाल केजर ने अनुभव साझा किए। कट्स के धर्मदेव चतुर्वेदी, आर्यागणेश कुमार ने भी वित्तीय साक्षरता के लिए प्रेरित किया।

# हर महिला को वित्तीय साक्षर बनकर बैंकिंग योजनाओं का लाभ लेना जरूरी

## » वित्तीय साक्षरता पर जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित

चित्तौड़गढ़ (बढ़ ता राजस्थान)। महिलाएं सरकारी एवं गैर सरकारी वित्तीय संस्थाओं की योजनाओं से जुड़कर आत्मनिर्भर बने, आज के युग में बैंकिंग एक बुनियादी सेवा के रूप में विकसित हो रही है। हर महिला को वित्तीय साक्षर होना जरूरी है। उक्त विचार जिला रसद अधिकारी कुमारी बिजल सुराणा ने कट्स मानव विकास केन्द्र द्वारा शुक्रवार को किसान भवन के सभागार में आयोजित वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण परियोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय हितधारक एवं वित्तीय परामर्श कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किया। कट्स के सहायक निदेशक गौहर महमूद ने बताया कि भारत सरकार के उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सहयोग से संचालित वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण परियोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है।



गौहर महमूद ने बताया कि भारत सरकार के उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सहयोग से संचालित वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण परियोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है।

एटीएम कार्डधारी की दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है और 45 दिन के भीतर उसने एक बार कार्ड का उपयोग किया हो तो सरकार उसे 2 लाख तक का मुआवजा देती है, इस तरह अटल पेंशन योजना में 60 वर्ष की उम्र के पश्चात् 1000 से 5000 तक की पेंशन परिवार का कोई भी सदस्य जो 18 वर्ष से अधिक का हो, फायदा ले सकता है। इस अवसर पर सरकार के उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय दिल्ली के प्रतिनिधि श्री सचिन कुमार ने महिलाओं को शिक्षित और जागरूक होकर डिजिटल सेवाओं से जुड़कर लाभ लें और सामाजिक कुर्बरीतियों को खत्म करने के लिए एकजुट होकर आगे आने के लिए प्रेरित किया। कार्यशाला में चित्तौड़गढ़ जिले की 11 पंचायत समितियों से 122 महिलाओं ने भाग लिया।